



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 353] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1976/कार्तिक 8, 1898

No. 353] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1976/KARTIKA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 30th October 1976

**G.S.R. 858(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium wire rods, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when manufactured by any person out of aluminium that has been sold or supplied as levy aluminium in pursuance of the Aluminium (Control) Order, 1970, as in force for the time being, read with the notifications and orders issued thereunder, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty calculated on such aluminium wire rods on the basis of a price which is equivalent to the sale price fixed by the Central Government, from time to time, in terms of the provisions contained in the aforesaid Order, as the price payable to a producer, in respect of aluminium wire rods required to be sold or supplied as levy aluminium.

*Explanation.*—In this notification, the expressions “levy aluminium” and “producer” shall have the same meanings as in clause 2 of the Aluminium (Control) Order, 1970 as in force for the time being.

2. The exemption under this notification shall not be available to any person who may otherwise be entitled to the exemption under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 167/75-Central Excises, dated the 15th July, 1975 in respect of aluminium wire rods.

[No. 265/76]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

### अधिसूचना

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1976

सां० का० नि० 858 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 27 के अन्तर्गत आने वाली एल्युमिनियम वायर रॉडों को, तब जब उसका निर्माण किसी व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त एल्युमिनियम (निर्गमन) आदेश, 1970 तथा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसरण में “लेवी एल्युमिनियम” के रूप में बेचे या प्रदाय किये गये एल्युमिनियम में से किया जाता है, उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे एल्युमिनियम वायर रॉडों पर, उस मूल्य के आधार पर, जो लेवी एल्युमिनियम के रूप में बेचे या प्रदाय किये जाने के लिये अपेक्षित एल्युमिनियम वायर रॉडों की बाबत उत्पादक को संवेद्य मूल्य के रूप में, उपरोक्त आदेश में सम्मिलित उपबन्धों के अनुसार, जब केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये गये क्रिय मूल्य के समतुल्य मूल्य के आधार पर संगणित शुल्क से अधिक है।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में “लेवी एल्युमिनियम” तथा “उत्पादक” पदों के वही अर्थ हैं जो उनके तत्समय प्रवृत्त एल्युमिनियम (निर्गमन) आदेश, 1970 के खंड 2 में हैं।

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसे किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 167/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1975 द्वारा एल्युमिनियम वायर रॉडों की बाबत अधिसूचना के अन्तर्गत छूट के अन्यथा हकदार हैं।

[सं० 265/76]

आर० के० चन्द्र, प्रवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
भीषित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

